



Baid Leasing and Finance Co. Ltd.

Regd. Office: "Baid House", IInd Floor, 1-Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur-06 Ph:9214018855
E-mail: baidfinance@baidgroup.in Website: www.balfc.com CIN: L65910RJ1991PLC006391

Date: February 05, 2020

**To,
BSE Ltd.,
25th Floor, P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001**

Sub.: Notice of Board Meeting - Newspaper Advertisement – Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref: Scrip Code: 511724

Dear Sir / Madam,


In continuation of our intimation dated February 04, 2020 with regard to notice of board meeting and pursuant to regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing Newspaper Advertisements published in Nafa Nuksan and Financial Express on February 05, 2020. The same has been made available on the Company's website www.balfc.com.

This is for your intimation and records.

**Thanking you,
Yours Sincerely,**

For Baid Leasing And Finance Co. Ltd.

For Baid Leasing And Finance Co. Ltd.

 Company Secretary

**CS Namrata Sajnani
Company Secretary &
Compliance Officer
FCS-10030**

Encl.-A/a

इंज प्रवृत्ति

हॉलीडे ट्रिप, लग्जरी उत्पादों के उपयोग को भी मन की अवस्था से सैट कर लिया जाता है। अमेरिका का उदाहरण देखें तो जब वहां की अर्थव्यवस्था बूम पर थी, शेयर बाजार हाई रहा करता था तो उपभोग भी अधिक था। आर्थिक मंदी के बाद की स्थिति देखें तो लोगों की नोकियां गईं और उनके पास पैसे की कमी आई तो उत्पादों का उपभोग व खरीद भी कम हो गई। इसे वैल्यू इफेक्ट कहते हैं। यदि उपभोक्ता के पास पैसे की कमी नहीं है और मन की अवस्था सकारात्मक है तो वह लग्जरी पर काफी खर्च करेगा और यदि मन की अवस्था नकारात्मक है तो कन्स्यूमर-सेंटीमेंट भी कमजोर होगा। ऐसा हर देश में समय-समय पर देखा जाता है। देश ही क्या यह तो परिवार की कहानी है। यदि परिष्कार में खुशहाली है तो स्पेंडिंग अनुपात अधिक हो जायेगा।

ना लेंगे रही है से काम हैं मन फी तक कम्फर्ट शीशानर,

ऑनलाइन एड ग्रोथ में गिरावट की सम्भावना

एजेंसी। वर्ष 2021 में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी न होने की वजह से पूर्व आकलन में कमी दर्ज की जा सकती है। इंडस्ट्री फोरकास्टर जेनिथ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ग्लोबल एडवर्टाइजिंग करीब 52 प्रतिशत का योगदान करेगी। यह पचास प्रतिशत के लेवल को पहली बार पार करेगी। रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जबकि एडवर्टाइजिंग कम्पनियां यह देख रही हैं कि उनके क्लाइंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक पर जा रहे हैं क्योंकि वहां वे कन्स्यूमर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। जेनिथ के अनुसार वर्तमान में कुल वैश्विक विज्ञापन खर्च में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की है। 2001 के बाद 2021 पहला वर्ष होगा जबकि एड स्पेंड ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहेगी। 2021 डॉट कॉम बबल बस्ट का वर्ष माना जा रहा है। हालांकि अभी भी बड़े ब्राण्ड्स पारम्परिक मीडिया, स्थानीय और छोटे बजट वाली विज्ञापन नीति को अपनाते हैं।

ये लोग फेसबुक और गूगल प्लेटफॉर्म को विज्ञापन के लिए चुनते हैं। बड़े विज्ञापनदाता अपने बजट का औसत पचास फीसदी ऑनलाइन विज्ञापन पर खर्च करते हैं। ओवरऑल ग्लोबल एडवर्टाइजिंग स्पेंड 2019 में 28 बिलियन डॉलर रहने की सम्भावना है। इसमें से पचास फीसदी ग्रोथ अमेरिका से मिल सकती है। इसके बाद चीन बड़ा योगदानकर्ता और इसके बाद ब्रिटेन और भारत का नम्बर है। इन सभी देशों में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का दायरा बढ़ रहा है।

GANPATI PLASTFAB LIMITED
CIN : L25209RJ1984PLC003152
Regd. Office: 334, SHEKHAWAT MANSINGH BLOCK,
NEMI SAGAR COLONY, QUEENS ROAD,
JAIPUR 302016, Ph: - 0141-4023650
E-mail: secretarygp84@gmail.com, Website : www.gpl.co.in

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company scheduled to be held on Thursday: 13th February, 2020 at 03:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 334, Shekhawat Mansingh Block, Nemi Sagar Colony, Queens Road, Vaishali Nagar Jaipur-302016, Rajasthan, inter-alia, to consider, approve and to take on record the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the 3rd Quarter and 9 months ended on 31st December, 2019.

The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.gpl.co.in.

For GANPATI PLASTFAB LIMITED
Sd/-
Date : 04.02.2020 Ashok Kumar Pabuwal
Place : Jaipur Managing Director

तयों से बचें

पने त्वचा विशेषज्ञ से उन के बारे में जान सकते हैं जो त्वचा के अनुरूप हो। नियमित रूप से क्लींजिंग न क्लींजिंग हमारी त्वचा के लिए दा जरूरी है। ऐसे में इसे नियमित रूप करें। दिन में मेकअप अप्लाई पहले और रात में सोने से पहले निश्चित रूप से करें।
मॉइश्चराइजिंग न करना : त्वचा को हर रोज इजेसन की आवश्यकता पड़ती है के तुरंत बाद मॉइश्चराइजर करने और नहाने के काफी समय इसे न लगाने का प्रभाव आपको बिल्कुल पड़ता है। आपको मॉइश्चराइजर न लगाने की भारी कानी पड़ सकती है।

एसआरजी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड

CIN NO: L65922RJ1999PLC015440
पंजीकृत कार्यालय : 321 एसएम लोड्स कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीसर्कल के पास, जयपुर (राज.)-313001, टेलीफोन : 0294-2561882 ई-मेल info@srghousing.com, WEBSITE: www.srghousing.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 12 फरवरी, 2020 को अपरान्ह 04:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नोमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी एवं लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को रिपोर्ट में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srghousing.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एसआरजी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के लिए
स्थान : जयपुर सुनैना नागर
दिनांक : 04.02.2020 कम्पनी सचिव (एच0754)



बैड लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बैड हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06, फोन : 9214018855
E : baidfinance@baidgroup.in • W : www.balfc.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेंयूल्शन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक 13 फरवरी, 2020 गुरुवार को सायं 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बैड हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 में आयोजित की जा रही है जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नोमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को रिपोर्ट में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.balfc.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

दिनांक : 4 फरवरी, 2020
स्थान : जयपुर
यह सूचना बैड लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड की एस. नम्रता सजानी (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) (M. No. F-10030)



कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक भू.प./20-1998 -सार्वजनिक सूचना- दिनांक 04-02-2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति रेणु मानसिंहका पत्नी श्री रवि मानसिंहका द्वारा राजस्व ग्राम हरणीखुर्द की आराजी संख्या 40/1 ख में स्थित भूखण्ड संख्या 4 कुल क्षेत्रफल 668.79 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पंप) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन वास्ते न्यास कार्यालय में आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का मास्टर प्लान 2035 में आवासीय भू-उपयोग दर्शा रखा है आवेदित भूखण्ड का पेट्रोल पंप उपयोग वास्ते भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में कि को आपत्ति हो तो 15 दिवस में न्यास कार्यालय में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

पंचिव - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



BAID LEASING AND FINANCE CO. LTD.

Regd. Office: "Baid House" 1st Floor, 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur-06. • Ph.: 9214018855
E.: baidfinance@baidgroup.in • W.: www.balfc.com, CIN: L65910RJ1991PLC006391

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 13th day of February, 2020 at 04:00 P.M., at the registered office of the Company at "Baid House", 1st Floor, 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur-302 006 (Rajasthan), inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2019 and to take on record limited review report thereon. This Intimation is also available on Company's website at www.balfc.com and on Stock Exchanges' website at www.bseindia.com.

Date: February 04, 2020
Place: Jaipur

For Baid Leasing and Finance Co. Ltd.
CS Namrata Sajani
Company Secretary and Compliance Officer (M. No. F-10030)

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED

CIN-L74899DL2000PLC105817

Regd. & Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020.

Tel.: 011-47351111 Fax.: 011-2622 9671

Website: www.tigerlogistics.in, Email: csvishal@tigerlogistics.in

NOTICE OF THE BOARD MEETING

In accordance with regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 notice is hereby given that a meeting of the board of directors of Tiger logistics (India) limited is scheduled on Wednesday, 12th February, 2020 to inter alia, consider, approve and take on record the un-audited financial of the company for the quarter ended 31st December, 2019

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended & Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report the trading of securities of the company read with BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 02.04.2019, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already closed for all "Designated Persons" of the Company from January 1st, 2020 till 48 hours after the declaration of the financial results of the Company for the quarter ended 31st December, 2019 to the Stock Exchange (both days inclusive).

This Notice is also available on the website of the company at www.tigerlogistics.in and on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

For Tiger Logistics (India) Limited

Date: 04.02.2020
Place: New Delhi

Sd/-
Vishal Saurav Gupta
Company Secretary & Compliance Officer



बँक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
(One Family One Bank)

DELHI ZONAL OFFICE, 15, NBCC Towers, 3rd Floor
Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066
Phone: 011-26164817/26197769, Fax: 011-26171554
E-mail: legal_del@mahabank.co.in

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

WHEREAS, the undersigned being the Authorised Officer of the Bank Of Maharashtra under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice dated 13.11.2019 calling upon 1. Mr. Rajesh Sharma (Borrower), 2. Mr. Rakesh Sharma (Borrower), 3. Mr. Sanjay Rai (Borrower), 4. Mrs. Raksha Devi (Borrower), 5. Mr. Vikas Sharma (Borrower) and 6. Mr. Jai Gopal Batra (Guarantor) to repay Rs. 6,21,632/- (Rupees Six Lakhs Twenty One Thousand Six Hundred and Thirty Two Only) + unapplied interest @ 9.75% p.a. w.e.f. 13.11.2019, within 60 days from the date of receipt of the said Notice. (The notice was sent by Speed Post).

The borrower & guarantor's having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor's and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 31st of January, 2020.

The borrower & guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra for an amount hereinabove mentioned.

The borrower's & guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The details of the properties mortgaged to the Bank and taken possession by the Bank are as follows:

Property at house No.: 17/791, 1st floor, Approach Road, Near Railway Station, Rohtak, Haryana-124001 admeasuring 47 sqr. yards

Date: 31.01.2020
Place: Rohtak

For Bank of Maharashtra
Assistant General Manager &
AUTHORISED OFFICER

FORM NO. INC-26 (PURSUANT TO RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014)

Before the Central Government
Regional Directorate, Northern Region
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of Sarvpriya Securities Private Limited having its registered office at Unit No 201 B, 2nd Floor, Tower A Signature Tower, South City-1, Gurugram -122001

.....Petitioner
Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on 24.01.2020 to enable the Company to change its Registered office from the "State of Haryana" to the "National Capital Territory of Delhi". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on

HRB FLORICULTURE LIMITED

CIN: L01300RJ1995PLC009541

Registered Office: A-28, Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur-302016 Ph. 0141-2303098, 2303097 (Telex)
E-mail: hrbfltd@yahoo.com, Website: www.hrb.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 13th February 2020 at 04:00 P.M. at the registered office of the Company inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2019. The said notice may be accessed on the Company's website at www.hrb.co.in and BSE's website at www.bseindia.com.

For HRB Floriculture Limited
Krishan Kumar Parwal
(Managing Director)
Place: Jaipur
Date: 04.02.2020
DIN: 00228200

INTEGRA TELECOMMUNICATION AND SOFTWARE LIMITED

CIN: L74899DL1985PLC020286

Regd. Office.: Flat No. 901 B, Devika Tower 6, Nehru Place New Delhi -110019
Corp. Office: 610/611, Nirmal Galaxy Avior, L.B.S Road, Near Johnson & Johnson, Mulund(W), Mumbai -400080
Contact: (011) 41008327,
E-mail: info@integratelesoftware.com
Website: www.integratelesoftware.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held at the Corporate Office on Thursday, 13th day of February, 2020 at 4:00 PM to inter alia, consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2019.

The notice is also available on Company's website www.integratelesoftware.com and website of the Stock Exchange www.bseindia.com.

For Integra Telecommunication and Software Limited
Date : 04.02.2020 Sd/- Jeet Rajen Shah
Place : Mumbai Director

EMA INDIA LIMITED

Regd. Office : C-37, Park Industrial Area, P.O. Laksh Nagar, Kanpur-208022, Tel. +91-512-2081215-11
Website : www.ema.info, e-mail : ema@ema.com,
CIN : L72201UP19871PLC003408

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday 13th February, 2020 inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2019.

The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website (www.ema.info) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).

For EMA INDIA LTD.
(NAMITASAHARWAL)
Company Secretary
Date : 04.02.2020
Place : Kanpur

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

R.O: 321, S. M. LODHA COMPLEX, UDAIPUR 313001

PH: 0294-2561882, 2412609, EMAIL: info@srghousing.com,

CIN NO: L65922RJ1999PLC015446,

WEBSITE: www.srghousing.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday 12th February, 2020 at 04:00 PM at the registered office of the Company, to inter alia consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and nine-months ended December 31, 2019 along with the Limited Review report of Auditors thereon and such other matters as specified in the notice.

The information contained in the Notice is available on the website of the Company www.srghousing.com and on the website of BSE - www.bseindia.com.

For SRG Housing Finance Limited
Date: 04.02.2020 Sd/-
Place: Udaipur Sunaina Nagar
Company Secretary (M.No: A40754)



VARDHMAN POLYTEX LIMITED

Regd. Office: Vardhman Park, Chandigarh Road, Ludhiana-141123,

Ph: -0161-6629990, 6629888; FAX: 0161-6629988,

CIN: L17122PB1980PLC004242, Email: secretarial@vpl.in; Website: www.vpl.in

NOTICE

Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Wednesday, 12th February, 2020 at the registered office: Vardhman Park, Chandigarh Road, Ludhiana-141123, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31.12.2019. For further details, the stakeholders are advised to visit the following websites: www.vpl.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com.

For Vardhman Polytex Limited
Date: 04.02.2020 Sd/-
Place : Ludhiana (Ajay K. Ratra)
(Company Secretary)

NISHANT INBUILD LIMITED

CIN: L74899DL2006PLC145669

Regd. Off.: Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market,

Old Rohtak Road, Delhi-110007

Email id: inbuildnishant@gmail.com; Tel: 09999841041

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 14th February, 2020 at 4:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, at Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi - 110007, inter-alia to consider and take on record the company's Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019 and any other relevant matter.

Further we wish to inform you that pursuant to Company's Code of Conduct read with Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing/trading in the securities of the Company by designated persons of the Company and their relatives, shall remain closed from 1st January, 2020 to 16th February, 2020 (both days inclusive).

For Nishant Inbuild Limited
Date : 04.02.2020 Sd/-
Place : Delhi Dharendra Kumar Gupta
(Managing Director)

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase-I

New Delhi- 110020

CIN: L74899DL1994PLC059950

Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461

Email id: info@pushpsons.com

Website: www.pushpsons.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice

HIGH STREET FILATEL LIMITED

Regd Off: B-17, 1st Floor, 22 Godam Industrial Area, Jaipur-302006

Website : www.highstreetfilatel.in

E-mail : highstreetfilatel@gmail.com

Corporate Identity Number : L1810RJ1994PLC008388

Notice of Board Meeting

(Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 11 February, 2020 at 04.00 P.M. at the registered office of the Company at B-17, 1st Floor, 22 Godam Industrial Area, Jaipur-302006.

The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website (www.highstreetfilatel.in) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).

For High Street Filatel Limited
Date : 04.02.2020 Sd/-
Place : Jaipur Dharendra Kumar Gupta
(Managing Director)